

**वित्तीय वर्ष 2009-2010 की द्वितीय छःमाही के दौरान बजट  
से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का  
छःमाही समीक्षा विवरण**

**वृहद् आर्थिक पृष्ठ भूमि**

वर्ष 2008-09 के त्वरित अनुमान अनुसार प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में (वर्ष 1999-2000 के स्थिर भाव पर) पिछले वर्ष के प्रावधिक अनुमान की तुलना में 8.67 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2009-10 के अग्रिम अनुमान अनुसार गत वर्ष के त्वरित अनुमान की तुलना में 8.60 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक स्थिति **सारणी -1** में दर्शाई गई है।

**सारणी - 1**  
**राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमानों की तुलनात्मक स्थिति**  
(वर्ष 1999-2000 के स्थिर भावों पर)

(राशि करोड़ में)

क्षेत्र	वर्ष 2008-09 (त्वरित अनु)	वर्ष 2009-10 (अग्रिम अनु)	वर्ष 2009-10 में गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
कृषि (पशुपालन सहित), वानिकी एवं मछली पालन	25802.53	26531.38	2.82
खनिज एवं खनन	4450.75	4883.18	9.72
विनिर्माण	11487.19	12437.99	8.28
विद्युत गैस एवं जल प्रदाय	4505.51	4814.45	6.86
निर्माण	9844.92	10785.91	9.56
व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार	31088.98	35076.64	12.83
बैंकिंग एवं बीमा, रीयल स्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएँ	14679.68	15924.87	8.48
अन्य सेवायें	15912.34	17441.86	9.61
<b>योग</b>	<b>117771.90</b>	<b>127896.28</b>	<b>8.60</b>

2. वर्ष 2009-10 के दौरान प्रदेश में लगातार तीसरे वर्ष भी मध्यप्रदेश के अनेक जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। प्रदेश में पेयजल संकट के साथ ही फसलों पर भी इसका विपरीत प्रभाव संभावित है।

### आय और व्यय की प्रवृत्तियाँ

3. वर्ष 2009-10 के दौरान शासन के वित्तीय साधनों की तुलनात्मक स्थिति **अनुलग्नक-1** पर है। प्रमुख राजकोषीय समुच्चय की जानकारी **सारणी 2** एवं **सारणी 3** में दी गई है। वर्ष 2009-10 के द्वितीय छ माही के आंकड़े अन्तरिम हैं। महालेखाकार कार्यालय से अंतिम लेखा प्राप्त होने पर आंकड़ों में परिवर्तन संभावित है।

4. वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में गत वर्ष की द्वितीय छःमाही की तुलना में कुल राजस्व प्राप्तियों में 37.64 प्रतिशत की वृद्धि, पूंजीगत प्राप्तियों में 90.79 प्रतिशत की वृद्धि तथा कुल व्यय में 40.07 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है।

### सारणी – 2 प्रमुख राजकोषीय समुच्चय (वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान से तुलनात्मक स्थिति)

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्रमांक	मद	बजट अनुमान	अप्रैल-सितम्बर	अक्टूबर-मार्च	कुल प्राप्तियां/व्यय	प्रथम छःमाही की तुलना में द्वितीय छःमाही में वृद्धि का प्रतिशत	बजट अनुमान की तुलना में कुल प्राप्तियां/व्यय में वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुल राजस्व प्राप्तियां	39961.03	15820.46	25772.24	41592.70	62.90	4.08
2	कर राजस्व	27122.86	11444.42	17103.37	28547.79	49.45	5.25
	(राज्य के स्वयं के कर राजस्व)	16075.45	6604.36	10866.31	17470.67	64.53	8.68
	(केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा)	11047.41	4840.06	6237.06	11077.12	28.86	0.27
3	केन्द्र से सहायक अनुदान	8901.63	2756.07	3906.80	6662.87	41.75	-25.15
4	पूंजीगत प्राप्तियां	6619.45	2652.04	4905.81	7557.85	84.98	14.18
5	आयोजनेतर व्यय	27416.77	11717.37	17709.70	29427.07	51.14	7.33
6	आयोजना व्यय	19028.03	5511.37	13020.86	18532.23	136.25	-2.61
7	कुल व्यय	46444.80	17228.76	30730.55	47959.31	78.37	3.26
8	राजस्व व्यय	38262.12	14527.35	21525.35	36052.70	48.17	-5.77
9	पूंजीगत व्यय	6793.16	2251.60	5825.35	8076.95	158.72	18.90
10	उधार और अग्रिम	1389.52	449.81	3379.85	3829.66	651.40	175.61
11	राजस्व आधिक्य	1698.91	1293.10	4246.90	5540.00	-	-
12	राजकोषीय घाटा	-6436.41	-1399.20	-4919.59	-6318.79	-	-

**सारणी – 3**  
**प्रमुख राजकोषीय समुच्चय**  
**(वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 की स्थिति)**

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्रमांक	मद	2008-09		2009-10		2008-09 की तुलना में 2009-10 में वृद्धि का प्रतिशत	
		अप्रैल-सितम्बर	अक्टूबर-मार्च	अप्रैल-सितम्बर	अक्टूबर-मार्च	प्रथम छःमाही से प्रथम छःमाही	द्वितीय छःमाही से द्वितीय छःमाही
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुल राजस्व प्राप्तियां	14852.53	18724.68	15820.46	25772.24	6.52	37.64
2	कर राजस्व	11298.81	13081.83	11444.42	17103.37	1.29	30.74
	(राज्य के स्वयं के कर राजस्व)	6149.85	7463.64	6604.36	10866.31	7.39	45.59
	(केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा)	5148.96	5618.19	4840.06	6237.06	-6.00	11.02
3	केन्द्र से सहायक अनुदान	2203.98	3649.73	2756.07	3906.80	25.05	7.04
4	पूँजीगत प्राप्तियां	2403.52	2571.37	2652.04	4905.81	10.34	90.79
5	आयोजनेतर व्यय	10342.26	12944.74	11717.37	17709.70	13.30	36.81
6	आयोजना व्यय	5807.66	8994.55	5511.37	13020.86	-5.10	44.76
7	कुल व्यय	16149.92	21939.30	17228.76	30730.55	6.68	40.07
8	राजस्व व्यय	12981.71	16532.17	14527.35	21525.35	11.91	30.20
9	पूँजीगत व्यय	2550.76	4162.39	2251.60	5825.35	-11.73	39.95
10	उधार और अग्रिम	617.45	1244.74	449.81	3379.85	-27.15	171.53
11	राजस्व आधिव्यय	1870.82	2192.51	1293.10	4246.90		
12	राजकोषीय घटा	-1286.03	-3147.57	-1399.20	-4919.59		

**राजस्व प्राप्तियां**

**कुल राजस्व**

5. वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में कुल राजस्व प्राप्तियां रुपये 25772.24 करोड़ रही जो वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही की राजस्व प्राप्तियां रुपये 18724.68 की तुलना में 37.64 प्रतिशत अधिक तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 की प्रथम छःमाही की राजस्व प्राप्तियों रुपये 15820.46 करोड़ की तुलना में 62.90 प्रतिशत अधिक हैं। वर्ष 2009-10 की कुल राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमान रुपये 41592.70 करोड़ की तुलना में 4.08 प्रतिशत अधिक हैं। वर्ष 2009-10 के द्वितीय छःमाही में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, केन्द्र से सहायता अनुदान एवं कर भिन्न राजस्व का योगदान क्रमशः 66.36 प्रतिशत, 15.16 प्रतिशत एवं 18.48 प्रतिशत रहा।

## कर राजस्व

6. कुल कर राजस्व संग्रहण का विवरण **अनुलग्नक - 2** पर है। वर्ष 2009-10 के द्वितीय छःमाही में कुल कर राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की द्वितीय छःमाही की तुलना में 30.74 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है। द्वितीय छःमाही में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में राज्य की स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियों में 45.59 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है जबकि केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में मात्र 11.02 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है। वर्ष 2009-10 में राज्य का स्वयं का कुल कर राजस्व रुपये 17470.67 करोड़ प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2009-10 में राज्य के स्वयं के कर में विगत वर्ष की तुलना में 28.33 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है जो वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान से 8.68 प्रतिशत अधिक है।

(राज्य के स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख मदों के अन्तर्गत प्राप्तियों की जानकारी **सारणी - 4** तथा **सारणी - 5** में दर्शित है)

### सारणी - 4

#### राज्य के स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख मदों के अन्तर्गत प्राप्तियां (वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान से तुलनात्मक स्थिति)

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

राजस्व शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान	अप्रैल-सितम्बर	अक्टूबर-मार्च	कुल प्राप्तियां	प्रथम छःमाही की तुलना में द्वितीय छःमाही की वृद्धि का प्रतिशत	बजट अनुमान की तुलना में प्राप्ति में वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
0023	होटल प्राप्ति कर	9.95	4.57	7.63	12.20	67.09	22.65
0028	आय तथा व्यय पर अन्य कर	188.61	75.45	128.47	203.92	70.28	8.12
0029	भू - राजस्व	161.81	66.12	113.92	180.03	72.30	11.26
0030	स्टाम्प तथा फंजीकरण शुल्क	1560.00	751.12	1032.03	1783.15	37.40	14.30
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	2760.00	1442.20	1509.74	2951.94	4.68	6.95
0040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8012.11	3150.94	4572.88	7723.82	45.13	-3.60
0041	वाहन कर	900.00	386.81	532.20	919.01	37.59	2.11
0042	माल तथा यात्रियों पर कर	1460.00	562.39	770.49	1332.88	37.00	-8.71
0043	विद्युत कर तथा शुल्क	1000.00	156.77	2187.72	2344.49	1295.51	134.45
	अन्य विविध प्राप्तियां	22.97	8.00	11.22	19.21	40.22	-16.35
	योग	16075.45	6604.36	10866.31	17470.67	64.53	8.68

## सारणी - 5

### राज्य के स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख मदों के अन्तर्गत प्राप्तियां (वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 की स्थिति)

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

राजस्व शीर्ष	विवरण	2008-09		2009-10		2008-09 की तुलना में 2009-10 में वृद्धि का प्रतिशत	
		अप्रैल-सितम्बर	अक्टूबर-मार्च	अप्रैल-सितम्बर	अक्टूबर-मार्च	प्रथम छःमाही से प्रथम छःमाही	द्वितीय छःमाही से द्वितीय छःमाही
1	2	3	4	5	6	7	8
0023	होटल प्राप्ति कर	3.39	6.28	4.57	7.63	34.84	21.63
0028	आय तथा व्यय पर अन्य कर	66.29	106.00	75.45	128.47	13.82	21.20
0029	भू - राजस्व	272.19	66.64	66.12	113.92	-75.71	70.93
0030	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	726.04	753.25	751.12	1032.03	3.45	37.01
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	1121.79	1180.16	1442.20	1509.74	28.56	27.93
0040	विक्री, व्यापार आदि पर कर	2906.92	3936.07	3150.94	4572.88	8.39	16.18
0041	वाहन कर	357.20	415.36	386.81	532.20	8.29	28.13
0042	माल तथा यात्रियों पर कर	547.85	784.71	562.39	770.49	2.65	-1.81
0043	विद्युत कर तथा शुल्क	139.15	203.91	156.77	2187.72	12.67	972.89
	अन्य विविध प्राप्तियां	9.03	11.25	8.00	11.22	-11.42	-0.33
	योग	6149.85	7463.64	6604.36	10866.31	7.39	45.59

### राज्य के स्वयं के कर राजस्व

7. वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में राज्य के स्वयं के कर राजस्व अन्तर्गत कर राजस्व प्राप्तियों की मदवार प्रवृत्ति निम्नानुसार है :-

- **होटल प्राप्ति कर** : वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में प्राप्तियां वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही की प्राप्तियों से 21.63 प्रतिशत अधिक रही जबकि वर्ष 2008-09 की प्रथम छःमाही की तुलना में वर्ष 2009-10 की प्रथम छःमाही की प्राप्तियों में 34.84 प्रतिशत की वृद्धि थी। वर्ष 2009-10 की कुल प्राप्तियां बजट अनुमान से 22.64 प्रतिशत अधिक हैं।
- **आय तथा व्यय पर अन्य कर** : वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में प्राप्तियां वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही की प्राप्तियों से 21.20 प्रतिशत अधिक रही जबकि वर्ष 2008-09 की प्रथम छःमाही की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2009-10 की प्रथम छःमाही में प्राप्तियां 13.82 प्रतिशत अधिक थीं। वर्ष 2009-10 की कुल प्राप्तियां बजट अनुमान से 8.11 प्रतिशत अधिक हैं।

- **भू-राजस्व** : वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही की प्राप्तियां वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही की प्राप्तियों की तुलना में 70.93 प्रतिशत अधिक रहीं जबकि वर्ष 2008-09 की प्रथम छःमाही की तुलना में वर्ष 2009-10 की प्रथम छःमाही में 75.71 प्रतिशत की कमी थी। वर्ष 2008-09 की प्राप्तियां बजट अनुमान से 11.26 प्रतिशत अधिक हैं।
- **स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क** : वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही की प्राप्तियां वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही की प्राप्तियों की तुलना में 37.01 प्रतिशत अधिक रहीं जबकि वर्ष 2008-09 की प्रथम छःमाही की तुलना में वर्ष 2009-10 की प्रथम छःमाही में प्राप्तियां 3.45 प्रतिशत अधिक थीं। वर्ष 2009-10 की प्राप्तियां बजट अनुमान से 14.30 प्रतिशत अधिक हैं।
- **राज्य उत्पाद शुल्क** : वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में प्राप्तियां वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही की प्राप्तियों की तुलना में 27.93 प्रतिशत अधिक रहीं जबकि वर्ष 2008-09 की प्रथम छःमाही में राजस्व प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2009-10 की प्रथम छःमाही में राजस्व प्राप्तियां 28.56 प्रतिशत अधिक थीं। वर्ष 2009-10 की प्राप्तियां बजट अनुमान से 6.95 प्रतिशत अधिक हैं।
- **वाहन कर** : वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में प्राप्तियां वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही की प्राप्तियों की तुलना में 28.13 प्रतिशत अधिक रहीं जबकि वर्ष 2008-09 की प्रथम छःमाही में प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2009-10 की प्रथम छःमाही में राजस्व प्राप्तियां 8.29 प्रतिशत अधिक थीं। वर्ष 2009-10 की प्राप्तियां बजट अनुमान से 2.11 प्रतिशत अधिक हैं।
- **माल तथा यात्रियों पर कर** : वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में प्राप्तियां वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही की प्राप्तियों की तुलना में 1.81 प्रतिशत कम रहीं जबकि वर्ष 2008-09 की प्रथम छःमाही में प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2009-10 की प्रथम छःमाही में राजस्व

प्राप्तियों में 2.65 प्रतिशत की वृद्धि थी। वर्ष 2009-10 की प्राप्तियां बजट अनुमान से 8.70 प्रतिशत कम हैं।

- **विद्युत कर तथा शुल्क** : वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में प्राप्तियां वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही की प्राप्तियों की तुलना में 972.89 प्रतिशत अधिक रहीं, यह वृद्धि विद्युत कर तथा शुल्क की वसूली एवं इन्हें कार्यशील अंशपूँजी के रूप में परिवर्तित होने के कारण परिलक्षित हुई है। वर्ष 2008-09 की प्रथम छःमाही की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2009-10 की प्रथम छःमाही में प्राप्तियां 12.67 प्रतिशत अधिक थीं। वर्ष 2009-10 की प्राप्तियां बजट अनुमान से 134.45 प्रतिशत अधिक हैं।
- **बिक्री, व्यापार आदि पर कर** : प्रदेश में दिनांक 1.4.2006 से वैट प्रणाली लागू हो गई है। वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में प्राप्तियां वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही की प्राप्तियों की तुलना में 16.18 प्रतिशत अधिक रहीं, जबकि वर्ष 2008-09 की प्रथम छःमाही में प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2009-10 की प्रथम छःमाही में राजस्व प्राप्तियां 8.39 प्रतिशत अधिक थीं। वर्ष 2009-10 की प्राप्तियां बजट अनुमान से 3.60 प्रतिशत कम हैं।

### **कर भिन्न राजस्व**

8. वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में कुल राशि रुपये 4762.07 करोड़ का संग्रहण कर भिन्न राजस्व के अन्तर्गत हुआ है, जो गत वर्ष की इसी अवधि की राशि रुपये 1993.12 करोड़ की तुलना में 138.92 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2009-10 की प्राप्तियां बजट अनुमान की तुलना में 62.12 प्रतिशत अधिक हैं।

कर भिन्न राजस्व के प्रमुख मदों में राजस्व प्राप्तियों की स्थिति **अनुलग्नक - 3** पर हैं।

### **केन्द्र से सहायक अनुदान**

9. वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में केन्द्र से प्राप्त सहायक अनुदान राशि रुपये 3906.80 करोड़ वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही में प्राप्त अनुदान राशि रुपये 3649.73 करोड़ से 7.04

प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2009-10 की कुल प्राप्तियां बजट अनुमान की तुलना में 25.15 प्रतिशत कम हैं।

## व्यय

### **आयोजनेतर व्यय**

10. वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में आयोजनेतर व्यय वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही के व्यय की तुलना में 36.81 प्रतिशत अधिक रहा (सारणी -3)। आयोजनेतर व्यय में इस वृद्धि का मुख्य कारण छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाएँ लागू की जाने से है। वर्ष 2009-10 का कुल आयोजनेतर व्यय बजट अनुमान से 7.33 प्रतिशत अधिक है (सारणी -2)। आयोजनेतर व्यय का शीर्षवार ब्यौरा **अनुलग्नक - 4** पर है।

### **राजस्व व्यय**

11. वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में आयोजनेतर राजस्व व्यय वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही में व्यय की तुलना में 23.87 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2009-10 का आयोजनेतर राजस्व व्यय वर्ष 2008-09 के आयोजनेतर राजस्व व्यय से 19.78 प्रतिशत अधिक तथा वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान से 2.78 प्रतिशत कम रहा।

### **पूंजीगत व्यय**

12. वर्ष 2009-10 का वास्तविक व्यय, बजट अनुमान से, 5.65 प्रतिशत कम रहा। वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में आयोजनेतर पूंजीगत व्यय वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही में व्यय की तुलना में 72.41 प्रतिशत कम रहा।

### **उधार और अग्रिम**

13. वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में उधार और अग्रिम अंतर्गत व्यय वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही में व्यय की तुलना में 228.78 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 2009-10 के आयोजनेतर



उधार और अग्रिम व्यय बजट अनुमान की तुलना में 734.87 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि बिजली परियोजनाओं के लिये दिये गये कर्जों के कारण है परिलक्षित हुई है।

### **आयोजना व्यय**

14. वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में आयोजना व्यय वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही में व्यय की तुलना में 44.76 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 2009-10 का कुल आयोजना व्यय बजट अनुमान से 2.60 प्रतिशत कम रहा। आयोजना व्यय का विवरण **अनुलग्नक - 5** पर है।

### **राजस्व व्यय**

15. वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में आयोजना राजस्व व्यय वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही के व्यय की तुलना में 46.18 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2009-10 में कुल आयोजना राजस्व व्यय बजट अनुमान की तुलना में 12.91 प्रतिशत कम है।

### **पूंजीगत व्यय**

16. वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में आयोजना पूंजीगत व्यय वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही के व्यय की तुलना में 45.46 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2009-10 में कुल आयोजना पूंजीगत व्यय बजट अनुमान की तुलना में 19.13 प्रतिशत अधिक है।

### **उधार और अग्रिम**

17. वर्ष 2009-10 में उधार और अग्रिम अंतर्गत आयोजना व्यय वर्ष 2008-09 के व्यय की तुलना में 1.43 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2009-10 की द्वितीय छः माही में उधार और अग्रिम अन्तर्गत व्यय वर्ष 2008-09 की द्वितीय छः माही की तुलना में 16.64 प्रतिशत अधिक रहा ।

### **राजस्व आधिक्य**

18. वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में राजस्व आधिक्य रुपये 4246.90 करोड़ रहा जबकि वर्ष 2008-09 में इसी अवधि में राजस्व आधिक्य रुपये 2192.51 करोड़ था (सारणी 2 एवं 3)। वर्ष 2009-10 के लिये राजस्व आधिक्य बजट अनुमान की तुलना में 226.09 प्रतिशत अधिक है।

राजस्व आधिक्य में यह वृद्धि बजट अनुमान की तुलना में आयोजना राजस्व व्यय में कमी के कारण परिलक्षित हुई है। राजस्व आधिक्य में वृद्धि से आयोजना अन्तर्गत पूंजीगत व्यय हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हुये हैं।

### **राजकोषीय घाटा**

19. वर्ष 2009-10 की द्वितीय छःमाही में राजकोषीय घाटा रुपये 4919.59 करोड़ वर्ष 2008-09 की द्वितीय छःमाही में राजकोषीय घाटा रुपये 3147.57 करोड़ की तुलना में 56.30 प्रतिशत अधिक रहा (सारणी 2 एवं 3)। पूरे वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये राजकोषीय घाटा बजट अनुमान की तुलना में 1.83 प्रतिशत कम है तथा राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.53 प्रतिशत (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान रूपये 194427.26 करोड़ के आधार पर) है जो वर्ष 2009-10 के लिये निर्धारित सीमा 4.00 प्रतिशत के अन्तर्गत है।

### **निष्कर्ष**

20. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के द्वितीय छःमाही के दौरान आय तथा व्यय की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवरण उपर्युक्तानुसार दिया गया है। उपरोक्त समीक्षा से अर्थिक मंदी का असर प्रदेश के राजस्व पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। राज्य कर एवं कर भिन्न राजस्व में जहाँ बजट अनुमान की तुलना में वृद्धि हुई है इसके विपरीत केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान में कमी आयी है। उपरोक्त समीक्षा यह भी इंगित करती है कि छठवें वेतनमान की अनुशंसाएँ लागू होने के फलस्वरूप आयोजनेतर व्यय में वृद्धि हुई है। वर्ष 2007-08 के बाद वर्ष 2009-10 में भी राजस्व आधिक्य की स्थिति बनाये रखी गई है तथा राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के भीतर है। विकास का लाभ प्रदेश के सभी क्षेत्र एवं समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हो, इसके लिये राज्य शासन प्रतिबद्ध है। कर प्रशासन को चुस्त बनाकर तथा राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखते हुये आवश्यक वित्त पोषण किया जा रहा है। प्रदेश के चहुँमुखी विकास, विशेषकर भौतिक तथा आर्थिक अधोसंरचना निर्माण हेतु, आयोजना व्यय में वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिये राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है।

लेखा एक नजर में

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्रमांक	शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	प्रतिशत	बजट अनुमान	वास्तविक*	प्रतिशत	वास्तविक आंकड़े		बजट अनुमान से प्रतिशत		
		2008-09	आंकड़े 2008-09	वृद्धि	2009-10	आंकड़े 2009-10	वृद्धि	वास्तविक आंकड़े 2008-09 की तुलना में वास्तविक आंकड़े 2009-10 का प्रतिशत	अक्टूबर-मार्च 2010	अक्टूबर-मार्च 2009	अक्टूबर-मार्च 2010	अक्टूबर-मार्च 2009
<b>1</b>	<b>राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)</b>	<b>34403.78</b>	<b>33577.21</b>	<b>-2.40</b>	<b>39961.03</b>	<b>41592.70</b>	<b>4.08</b>	<b>23.87</b>	<b>25772.24</b>	<b>18724.68</b>	<b>64.49</b>	<b>54.43</b>
2	कर राजस्व	24745.04	24380.64	-1.47	27122.86	28547.79	5.25	17.09	17103.37	13081.83	63.06	52.87
3	कर भिन्न राजस्व	3017.70	3342.86	10.78	3936.54	6382.04	62.12	90.92	4762.07	1993.12	120.97	66.05
4	केन्द्र से सहायता अनुदान	6641.04	5853.71	-11.86	8901.63	6662.87	-25.15	13.82	3906.80	3649.73	43.89	54.96
<b>5</b>	<b>पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8)</b>	<b>5059.01</b>	<b>4974.89</b>	<b>-1.66</b>	<b>6619.45</b>	<b>7557.85</b>	<b>14.18</b>	<b>51.92</b>	<b>4905.81</b>	<b>2571.37</b>	<b>74.11</b>	<b>50.83</b>
6	उधार एवं अग्रिम की वसूली	297.55	78.41	-73.65	47.36	47.82	0.97	-39.02	38.72	67.05	81.76	22.53
7	शुद्ध लोक ऋण	4675.15	4591.96	-1.78	6493.71	8602.51	32.47	87.34	7465.42	4350.64	114.96	93.06
8	लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियां	86.31	304.52	252.82	78.38	-1092.47	-1493.82	-458.75	-2598.33	-1846.32	-3315.04	-2139.17
<b>9</b>	<b>कुल प्राप्तियां (1+5)</b>	<b>39462.79</b>	<b>38552.10</b>	<b>-2.31</b>	<b>46580.48</b>	<b>49150.55</b>	<b>5.52</b>	<b>27.49</b>	<b>30678.05</b>	<b>21296.05</b>	<b>65.86</b>	<b>53.96</b>
<b>10</b>	<b>आयोजनेत्तर व्यय (11+13+14)</b>	<b>24090.49</b>	<b>23287.00</b>	<b>-3.34</b>	<b>27416.77</b>	<b>29427.07</b>	<b>7.33</b>	<b>26.37</b>	<b>17709.70</b>	<b>12944.74</b>	<b>64.59</b>	<b>53.73</b>
11	राजस्व व्यय	23245.54	21892.29	-5.82	26976.35	26223.95	-2.79	19.79	14668.00	11841.32	54.37	50.94
12	ब्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन खर्च	4489.67	4191.99	-6.63	4965.39	4454.30	-10.29	6.26	2547.11	2370.55	51.30	52.80
13	पूंजीगत व्यय	199.44	209.70	5.15	63.99	60.37	-5.66	-71.21	53.68	194.61	83.89	97.58
14	उधार और अग्रिम	645.51	1185.01	83.58	376.43	3142.76	734.88	165.21	2988.01	908.81	793.78	140.79
<b>15</b>	<b>आयोजना व्यय (16+17+18)</b>	<b>15351.84</b>	<b>14802.21</b>	<b>-3.58</b>	<b>19028.03</b>	<b>18532.23</b>	<b>-2.61</b>	<b>25.20</b>	<b>13020.86</b>	<b>8994.55</b>	<b>68.43</b>	<b>58.59</b>
16	राजस्व व्यय	8318.46	7621.59	-8.38	11285.77	9828.75	-12.91	28.96	6857.35	4690.85	60.76	56.39
17	पूंजीगत व्यय	5900.49	6503.45	10.22	6729.17	8016.58	19.13	23.27	5771.67	3967.78	85.77	67.24
18	उधार और अग्रिम	1132.89	677.18	-40.23	1013.09	686.90	-32.20	1.44	391.84	335.93	38.68	29.65
<b>19</b>	<b>कुल व्यय (10+15)</b>	<b>39442.33</b>	<b>38089.22</b>	<b>-3.43</b>	<b>46444.80</b>	<b>47959.31</b>	<b>3.26</b>	<b>25.91</b>	<b>30730.55</b>	<b>21939.30</b>	<b>133.02</b>	<b>112.32</b>
<b>20</b>	<b>राजस्व व्यय (11+16)</b>	<b>31564.00</b>	<b>29513.88</b>	<b>-6.50</b>	<b>38262.12</b>	<b>36052.70</b>	<b>-5.77</b>	<b>22.16</b>	<b>21525.35</b>	<b>16532.17</b>	<b>56.26</b>	<b>52.38</b>
<b>21</b>	<b>पूंजीगत व्यय (13+17)</b>	<b>6099.93</b>	<b>6713.15</b>	<b>10.05</b>	<b>6793.16</b>	<b>8076.95</b>	<b>18.90</b>	<b>20.32</b>	<b>5825.35</b>	<b>4162.39</b>	<b>85.75</b>	<b>68.24</b>
<b>22</b>	<b>उधार और अग्रिम (14+18)</b>	<b>1778.40</b>	<b>1862.19</b>	<b>4.71</b>	<b>1389.52</b>	<b>3829.66</b>	<b>175.61</b>	<b>105.65</b>	<b>3379.85</b>	<b>1244.74</b>	<b>243.24</b>	<b>69.99</b>
<b>23</b>	<b>राजस्व आधिक्य (1-20)</b>	<b>2839.78</b>	<b>4063.33</b>	<b>43.09</b>	<b>1698.91</b>	<b>5540.00</b>	<b>226.09</b>	<b>36.34</b>	<b>4246.90</b>	<b>2192.51</b>	<b>249.98</b>	<b>77.21</b>
<b>24</b>	<b>राजकोषीय घाटा (1+6-19)</b>	<b>-4741.00</b>	<b>-4433.60</b>	<b>-6.48</b>	<b>-6436.41</b>	<b>-6318.79</b>	<b>-1.83</b>	<b>42.52</b>	<b>-4919.59</b>	<b>-3147.57</b>	<b>76.43</b>	<b>66.39</b>

\* वर्ष 2009-10 के आंकड़े महालेखाकार द्वारा सूचित किये गये हैं, तथा यह अंतरिम है।

## कर राजस्व प्राप्ति का विवरण

अनुलग्नक-2

(आंकड़े हजार रुपयों में)

	अक्टूबर-मार्च		विगत वर्ष की द्वितीय छमाही से प्रतिशत वृद्धि	वास्तविक प्राप्तियां		वास्तविक प्राप्तियां 08-09 से वास्तविक प्राप्तियां 09-10 की प्रतिशत वृद्धि	बजट अनुमान	बजट अनुमान 09-10 से
	2008-2009	2009-2010		2008-2009	2009-2010		2009-2010	वास्तविक प्राप्तियां 09-10 की प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0020 निगम कर	18,42,32,41	26,95,94,79	46.33	35,30,66,00	45,58,66,00	29.11	44,59,30,00	2.22
0021 आय पर निगम कर से भिन्न कर	11,56,77,00	15,58,68,00	34.74	22,16,97,00	25,39,36,00	14.54	21,72,80,00	16.87
0023 होटल प्राप्ति कर	6,27,68	7,63,44	21.62	9,66,53	12,20,33	26.25	9,95,00	22.64
0028 आय तथा व्यय पर अन्य कर	1,05,99,86	1,28,47,40	21.20	1,72,29,05	2,03,92,44	18.36	1,88,61,00	8.11
0029 भू राजस्व	66,64,45	1,13,91,64	70.93	3,38,83,94	1,80,03,18	-46.86	1,61,81,05	11.26
0030 स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	7,53,25,26	10,32,03,14	37.01	14,79,29,28	17,83,14,99	20.54	15,60,00,00	14.30
0032 धन कर	1,74,00	8,45,00	385.63	3,36,00	10,31,00	206.84	4,27,00	141.45
0035 कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	0	12,14	-	0	12,25	-	0	-
0037 सीमा शुल्क	10,73,91,00	7,02,45,00	-34.58	20,58,09,00	15,50,31,00	-24.67	18,45,73,00	-16.00
0038 संघ उत्पाद शुल्क	9,36,60,00	6,86,45,00	-26.70	17,95,02,00	12,48,79,00	-30.43	12,45,09,00	0.29
0039 राज्य उत्पाद शुल्क	11,80,15,62	15,09,74,30	27.92	23,01,95,00	29,51,94,47	28.23	27,60,00,00	6.95
0040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर	39,36,07,18	45,72,87,98	16.17	68,42,98,88	77,23,81,94	12.87	80,12,11,00	-3.59
0041 वाहन कर	4,15,36,47	5,32,20,16	28.12	7,72,56,16	9,19,01,27	18.95	9,00,00,00	2.11
0042 माल तथा यात्रियों पर कर	7,84,71,47	7,70,49,49	-1.81	13,32,56,93	13,32,88,27	0.02	14,60,00,00	-8.70
0043 विद्युत कर तथा शुल्क	2,03,91,00	21,87,72,21	972.88	3,43,05,62	23,44,49,13	583.41	10,00,00,00	134.44
0044 सेवा कर	6,06,84,00	5,84,96,00	-3.60	11,63,04,00	11,69,56,00	0.56	13,20,94,00	-11.46
0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	11,25,26	11,21,55	-0.32	20,28,25	19,21,41	-5.26	22,25,19	-13.65
<b>योग</b>	<b>1,30,81,82,71</b>	<b>1,71,03,37,30</b>	<b>30.74</b>	<b>2,43,80,63,64</b>	<b>2,85,47,78,75</b>	<b>17.09</b>	<b>2,71,22,86,24</b>	<b>5.25</b>

कर भिन्न राजस्व प्राप्ति का विवरण

( आंकड़े हजार रुपयों में )

	अक्टूबर-मार्च		विगत वर्ष की द्वितीय छःमाही से प्रतिशत वृद्धि	वास्तविक प्राप्तियां		वास्तविक प्राप्तियां 08-09 से वास्तविक प्राप्तियां 09-10 की प्रतिशत वृद्धि	बजट अनुमान	बजट अनुमान 09-10 से
	2008-2009	2009-2010		2008-2009	2009-2010		2009-2010	वास्तविक प्राप्तियां 09-10 की प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0047 अन्य राजकोषीय सेवाएं	2	25	858.30	22	50	131.02	0	-
0049 ब्याज प्राप्तियां	1,00,47,45	11,97,43,39	1,091.77	1,63,28,50	12,84,02,62	686.37	1,76,98,07	625.51
0050 लाभांश तथा लाभ	13,03,38	18,56,08	42.40	69,05,22	49,75,34	-27.94	97,91,00	-49.18
0051 लोक सेवा आयोग	2,83,21	3,08,37	8.88	3,00,62	3,68,75	22.66	2,00,00	84.37
0055 पुलिस	12,69,99	28,30,51	122.87	23,62,57	41,98,11	77.69	64,03,00	-34.43
0056 जेल	1,19,75	1,61,42	34.79	2,54,50	3,16,89	24.51	4,03,00	-21.36
0058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण	10,40,07	16,71,11	60.67	12,83,43	22,99,04	79.13	19,59,57	17.32
0059 लोक निर्माण कार्य	12,12,03	14,08,79	16.23	21,74,36	27,37,28	25.88	19,36,08	41.38
0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	33,80,58	43,96,48	30.05	55,58,34	80,93,73	45.61	1,06,38,12	-23.91
0071 पेंशनों तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	4,69,21	13,19,62	181.24	8,03,46	18,47,12	129.89	7,98,20	131.41
0075 विविध सामान्य सेवाएं	3,75,51,27	3,92,74,41	4.58	3,80,16,84	3,99,11,92	4.98	4,09,64	9,643.17
0202 शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	2,73,51,65	4,43,61,53	62.18	3,18,96,87	7,44,99,87	133.56	5,05,22,94	47.45
0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	7,93,69	13,83,62	74.32	20,88,26	21,83,84	4.57	43,04,02	-49.26
0211 परिवार कल्याण	26,15	11,48	-56.11	55,65	19,24	-65.42	50,00	-61.51
0215 जल पूर्ति तथा सफाई	1,98,18	3,17,88	60.39	6,13,54	11,83,72	92.93	4,42,00	167.81
0216 आवास	6,93,51	7,24,10	4.41	14,40,75	14,56,04	1.06	27,59,52	-47.23
0217 शहरी विकास	1,45,65	3,50,34	140.52	3,38,51	5,00,55	47.86	7,19,24	-30.40
0220 सूचना तथा प्रचार	25,37	19,70	-22.35	35,29	28,83	-18.28	0	-
0230 श्रम तथा रोजगार	5,07,46	6,49,74	28.03	11,28,41	9,49,00	-15.89	4,72,28	100.94
0235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	33,61,68	5,50,43	-83.62	39,11,42	6,92,82	-82.28	3,65	18,881.47
0250 अन्य सामाजिक सेवाएं	14,88,34	11,80,26	-20.69	32,17,96	34,09,03	5.93	88,70	3,743.33
0401 फसल कृषि कर्म	9,91,51	10,36,72	4.55	15,51,07	16,14,35	4.08	15,81,66	2.06
0403 पशुपालन	1,85,25	1,11,17	-39.98	3,08,31	2,91,52	-5.44	2,22,78	30.85
0404 डेरी विकास	21	40	94.50	21	40	94.50	0	-
0405 मछली पालन	1,27,99	1,43,85	12.38	1,93,03	2,10,33	8.96	2,15,00	-2.16
0406 वानिकी ओर वन्य जीवन	2,48,40,77	3,94,08,99	58.64	6,85,60,40	8,01,99,97	16.97	8,50,00,00	-5.64
0408 खाद्य भंडारण और भंडारण	74,96	45,67	-39.07	74,67	43,72	-41.44	0	-

## कर भिन्न राजस्व प्राप्ति का विवरण

(आंकड़े हजार रुपयों में)

	अक्टूबर-मार्च		विगत वर्ष की द्वितीय छःमाही से प्रतिशत वृद्धि	वास्तविक प्राप्तियां		वास्तविक प्राप्तियां 08-09 से वास्तविक प्राप्तियां 09-10 की प्रतिशत वृद्धि	बजट अनुमान	बजट अनुमान 09-10 से
	2008-2009	2009-2010		2008-2009	2009-2010		2009-2010	वास्तविक प्राप्तियां 09-10 की प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0415 कृषि अनुसंधान और शिक्षा	0	3,40	-	0	3,40	-	0	-
0425 सहकारिता	10,48,90	8,27,53	-21.10	13,24,70	9,08,03	-31.45	10,32,92	-12.09
0435 अन्य कृषि कार्यक्रम	3,68,36	2,69,71	-26.78	4,66,87	3,59,00	-23.10	11,40,00	-68.50
0506 भूमि सुधार	0	0	-	0	0	-	0	-
0515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2,21,62	1,67,18	-24.56	3,77,23	3,02,65	-19.76	10,00	2,926.58
0700 मुख्य सिंचाई	4,42,92	5,86,75	32.47	13,14,93	12,22,71	-7.01	54,07,65	-77.38
0701 मध्यम सिंचाई	14,44,68	24,02,27	66.28	23,92,73	44,52,31	86.07	19,15,69	132.41
0702 लघु सिंचाई	4,46,49	5,46,61	22.42	8,06,54	7,75,77	-3.81	27,52,05	-71.81
0801 बिजली	36	10,82,08,03	**,***.**	2,28	10,82,08,34	**,***.**	2,52,61,00	328.36
0802 पेट्रोलियम	37	50	37.73	46	51	13.03	0	-
0810 अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	0	0	-	0	0	-	0	-
0851 ग्राम तथा लघु उद्योग	43,51	50,87	16.90	78,24	92,46	18.17	1,14,00	-18.89
0852 उद्योग	2,71,24	5,69,02	109.78	6,50,91	9,76,67	50.04	5,90,00	65.53
0853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	7,67,80,96	9,85,08,64	28.29	13,61,07,90	15,90,46,95	16.85	15,66,00,00	1.56
0875 अन्य उद्योग	21	0	-100.00	21	1	-90.64	0	-
1054 सड़क तथा सेतु	2,58,19	2,32,73	-9.86	4,61,33	4,21,99	-8.52	13,04,40	-67.64
1055 सड़क परिवहन	0	0	-	0	0	-	0	-
1425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0	0	-	0	0	-	0	-
1452 पर्यटन	22	4	-78.22	25	5	-77.42	3	88.13
1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	4,95,12	5,66,98	14.51	8,99,38	9,98,47	11.01	9,08,00	9.96
<b>योग</b>	<b>19,93,12,66</b>	<b>47,62,06,79</b>	<b>138.92</b>	<b>33,42,86,37</b>	<b>63,82,04,10</b>	<b>90.91</b>	<b>39,36,54,21</b>	<b>62.12</b>

आयोजनेतर व्यय का विवरण

(आंकड़े हजार रुपयों में)

1	अक्टूबर-मार्च		4	वास्तविक व्यय		7	8	9	
	2008-2009	2009-2010		2008-2009	2009-2010				
			विवृत वर्ष की द्वितीय छमाही से प्रतिशत वृद्धि			वास्तविक व्यय 08-09 से वास्तविक व्यय 09-10 से प्रतिशत वृद्धि	बजट अनुमान 2009-2010	बजट अनुमान 09-10 से वास्तविक व्यय 09-10 की प्रतिशत वृद्धि	
<b>राजस्व व्यय</b>									
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल	13,91,04	18,02,39	29.57	27,02,15	33,86,76	25.33	36,97,79	-8.41
2012	राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	2,22,01	2,65,11	19.41	4,02,27	4,73,25	17.64	4,63,65	2.07
2013	मंत्रिपरिषद	13,91,18	18,67,08	34.20	27,69,37	28,38,94	2.51	32,94,00	-13.81
2014	न्याय प्रशासन	96,82,10	1,32,69,59	37.05	1,87,58,40	2,47,03,10	31.69	2,31,53,93	6.69
2015	निर्वाचन	59,58,91	4,56,60	-92.33	34,23,65	54,58,79	59.44	64,86,67	-15.84
2020	आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	17,89	21,66	21.11	32,98	43,11	30.73	32,24	33.73
2029	भू राजस्व	1,06,78,67	1,22,21,84	14.45	2,01,70,20	2,41,99,50	19.97	2,45,89,42	-1.58
2030	स्टाम्प पंजीकरण	1,73,85,37	1,84,59,35	6.17	1,95,88,46	2,07,07,14	5.71	2,38,98,77	-13.35
2039	राज्य उत्पाद शुल्क	2,56,28,04	4,19,24,11	63.58	5,05,51,34	8,08,46,53	59.92	6,74,44,95	19.87
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	55,85,51	50,06,55	-10.36	89,47,05	89,55,25	0.09	95,53,13	-6.25
2041	वाहन कर	16,58,97	18,71,43	12.80	31,98,16	35,24,37	10.20	40,71,93	-13.44
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1,69,61,98	1,04,47,72	-38.40	1,73,71,58	1,09,77,54	-36.80	2,53,25,59	-56.65
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	1,15,28	1,11,96	-2.87	2,17,92	2,21,98	1.86	3,43,66	-35.40
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	0	0	-	0	0	-	1	-100.00
2049	ब्याज अदायगियां	23,70,54,88	25,47,10,63	7.44	41,91,99,22	44,54,30,26	6.25	49,65,39,09	-10.29
2051	लोक सेवा आयोग	5,46,37	2,89,05	-47.09	7,70,53	5,36,75	-30.33	7,71,72	-30.44
2052	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	32,32,84	36,97,72	14.37	63,51,46	72,01,58	13.38	74,90,84	-3.86
2053	जिला प्रशासन	1,05,58,94	1,35,80,99	28.62	2,00,66,22	2,50,86,10	25.01	2,42,08,45	3.62
2054	खजाना और लेखा प्रशासन	28,21,15	34,56,24	22.51	54,32,26	68,56,77	26.22	99,60,90	-31.16
2055	पुलिस	6,96,15,84	8,42,37,86	21.00	12,81,79,60	16,17,26,56	26.17	14,53,43,06	11.27
2056	जेल	46,22,09	55,55,11	20.18	97,25,65	1,15,88,91	19.15	1,05,87,33	9.46
2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	19,76,41	26,03,72	31.73	29,51,77	36,63,80	24.12	38,09,42	-3.82
2059	लोक निर्माण कार्य	95,43,24	1,10,92,24	16.23	1,82,42,85	2,11,67,18	16.03	1,92,07,49	10.20
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	52,64,84	61,08,94	16.03	1,01,72,18	1,15,69,69	13.73	9,48,15,83	-87.79
2071	पेंशन तथा सेवा निवृत्ति हितलाभ	12,54,14,96	16,27,49,16	29.76	24,33,04,84	30,77,17,99	26.47	36,40,99,75	-15.48
2075	विविध सामान्य सेवाएं	51,23	59,15	15.45	84,95	1,15,65	36.14	2,59,97	-55.51
2202	सामान्य शिक्षा	20,75,34,31	24,68,07,82	18.92	36,36,84,00	46,13,11,37	26.84	44,09,80,01	4.61

## आयोजनेतर व्यय का विवरण

(आंकड़े हजार रुपयों में)

	अक्टूबर-मार्च		विगत वर्ष की द्वितीय छमाही से प्रतिशत वृद्धि	वास्तविक व्यय		वास्तविक व्यय 08-09 से वास्तविक व्यय 09-10 से प्रतिशत वृद्धि	बजट अनुमान 2009-2010	बजट अनुमान 09-10 से वास्तविक व्यय 09-10 की प्रतिशत वृद्धि
	2008-2009	2009-2010		2008-2009	2009-2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2203 तकनीकी शिक्षा	39,91,63	48,05,30	20.38	72,75,72	84,36,28	15.95	85,45,18	-1.27
2204 खेल तथा युवा सेवार्ये	11,81,21	14,20,56	20.26	20,37,79	24,00,42	17.79	25,07,16	-4.25
2205 कला एवं संस्कृति	10,90,14	15,77,58	44.71	22,24,12	27,70,01	24.54	25,96,36	6.68
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5,23,67,12	6,76,38,75	29.16	9,69,56,55	11,82,76,42	21.98	12,07,59,10	-2.05
2211 परिवार कल्याण	1,33,32	1,82,82	37.12	2,12,15	2,11,16	-0.46	4,90,78	-56.97
2215 जल पूर्ति तथा सफाई	1,38,87,04	1,53,53,93	10.56	2,57,57,74	2,95,63,23	14.77	2,76,61,29	6.87
2216 आवास	28,64,51	35,22,19	22.95	64,83,69	73,66,18	13.61	77,02,78	-4.36
2217 शहरी विकास	5,61,18	6,91,08	23.14	11,49,26	14,42,03	25.47	13,75,60	4.82
2220 सूचना तथा प्रचार	32,28,99	42,09,47	30.36	55,04,42	62,78,68	14.06	53,39,22	17.59
2225 अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	90,55,24	1,30,31,56	43.91	2,28,61,41	2,54,68,43	11.40	2,50,39,61	1.71
2230 श्रम तथा रोजगार	33,56,78	46,73,10	39.21	64,73,81	84,67,95	30.80	74,28,51	13.99
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,27,14,07	50,23,25	-60.49	2,96,49,60	1,70,29,76	-42.56	1,91,71,07	-11.16
2236 पोषाहार	1,25,93	1,12,67	-10.52	2,08,86	2,24,63	7.55	2,13,14	5.39
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	-2,70,14,26	2,64,76,54	-198.00	2,78,83,08	2,97,43,75	6.67	3,57,94,67	-16.90
2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ	8,39,65	9,78,60	16.54	10,64,03	10,57,26	-0.63	12,74,48	-17.04
2251 सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ	5,79,21	6,88,72	18.90	11,58,17	15,32,57	32.32	16,19,12	-5.34
2401 फसल कृषि कर्म	1,25,14,51	1,33,64,80	6.79	2,07,55,49	2,37,12,04	14.24	2,13,78,52	10.91
2402 मृदा तथा जल संरक्षण	15,62,56	16,66,10	6.62	32,01,99	32,95,88	2.93	34,08,90	-3.31
2403 पशु पालन	1,04,47,62	1,29,85,32	24.28	1,95,33,11	2,40,61,72	23.18	2,33,91,76	2.86
2405 मछली उद्योग	6,98,63	9,42,25	34.87	14,10,02	17,66,65	25.29	16,32,14	8.24
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी	3,02,95,45	3,55,70,57	17.41	5,29,11,48	6,34,19,50	19.85	6,00,64,71	5.58
2408 खाद्य, भंडारण और भांडागार	3,21,31,61	4,42,59,46	37.74	5,38,05,09	5,35,56,40	-0.46	4,30,76,64	24.32
2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	38,06,95	27,03,12	-28.99	38,15,95	38,19,90	0.10	38,23,02	-0.08
2425 सहकारिता	19,70,29	48,97,52	148.56	39,30,30	72,62,78	84.78	45,65,97	59.06
2501 ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	-67	0	-100.00	0	0	-	0	-
2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	79,25,21	1,22,55,86	54.64	1,79,83,86	2,10,51,76	17.05	2,02,07,91	4.17
2700 मुख्य सिंचाई	34,62,86	42,96,27	24.06	71,14,67	76,28,06	7.21	81,37,44	-6.25
2701 मध्यम सिंचाई	1,00,91,79	1,14,70,30	13.65	1,93,12,54	2,19,75,33	13.78	2,17,07,15	1.23
2702 लघु सिंचाई	35,60,22	44,87,85	26.05	60,76,74	70,06,75	15.30	74,84,75	-6.38
2801 बिजली	9,27,77,55	8,36,48,85	-9.83	13,18,45,55	17,34,31,47	31.54	13,13,46,00	32.04



## आयोजनेतर व्यय का विवरण

(आंकड़े हजार रुपयों में)

	अक्टूबर-मार्च		विगत वर्ष की द्वितीय छःमाही से प्रतिशत वृद्धि	वास्तविक व्यय		वास्तविक व्यय 08-09 से वास्तविक व्यय 09-10 से प्रतिशत वृद्धि	बजट अनुमान 2009-2010	बजट अनुमान 09-10 से वास्तविक व्यय 09-10 की प्रतिशत वृद्धि	
	2008-2009	2009-2010		2008-2009	2009-2010				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	20,90,49	28,96,96	38.57	41,99,85	53,84,37	28.20	50,61,08	6.38
2852	उद्योग	2,81,02	3,22,60	14.79	5,92,07	6,59,59	11.40	8,59,94	-23.29
2853	अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	61,33,61	1,04,66,73	70.64	99,97,88	1,35,84,64	35.87	1,14,27,98	18.87
2885	उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	0	0	-	0	0	-	0	-
3053	नागर विमानन	35,90	24,36	-32.13	35,90	24,36	-32.13	27,01	-9.79
3054	सड़क तथा सेतु	2,24,74,95	2,82,10,86	25.52	6,07,84,70	5,54,05,43	-8.84	5,56,03,94	-0.35
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	41,55	2,27,08	446.42	3,08,59	3,20,38	3.82	3,47,43	-7.78
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	5,00,16	5,63,22	12.60	10,08,57	13,32,19	32.08	18,47,02	-27.87
3452	पर्यटन	13,21	8,59	-34.95	21,78	21,25	-2.40	24,16	-12.01
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	9,61,48	10,69,31	11.21	19,00,23	22,65,83	19.23	24,45,13	-7.33
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3,17,53	4,22,56	33.07	6,36,33	7,92,88	24.60	9,00,79	-11.97
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	8,61,61,72	13,69,78,99	58.97	15,48,46,85	22,00,37,44	42.10	19,09,17,65	15.25
<b>योग-राजस्व व्यय</b>		<b>1,18,41,32,30</b>	<b>1,46,68,00,00</b>	<b>23.87</b>	<b>2,18,92,29,00</b>	<b>2,62,23,94,58</b>	<b>19.78</b>	<b>2,69,76,34,71</b>	<b>-2.78</b>
<b>पूंजीगत व्यय</b>									
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	23,70,33	20,94,96	-11.61	23,70,33	20,94,96	-11.61	25,00,00	-16.20
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0	24,70	-	0	24,70	-	25,00	-1.17
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	0	-67,70	-	0	-67,70	-	0	-
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	12,52	20,09	60.44	26,64	20,09	-24.55	2,91,00	-93.09
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	2,94	0	-100.00	2,94	0	-100.00	0	-
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2,00,00	2,25,90	12.95	2,00,00	2,25,90	12.95	2,10,50	7.31
4408	खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	-8,08,40	-4,48,36	-44.53	6,79,32	2,22,91	-67.18	0	-
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0	1,49,02	-	0	1,49,02	-	0	-
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	0	2,50	-	0	0	-	0	-
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	-6,32	0	-100.00	0	0	-	0	-
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,59,99,39	33,67,20	-78.95	1,60,00,00	33,67,20	-78.95	33,67,20	0.00
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	19	0	-100.00	0	0	-	0	-
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	16,91,13	0	-100.00	16,91,13	0	-100.00	0	-
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0	0	-	0	0	-	5,00	-100.00
<b>योग-पूंजीगत व्यय</b>		<b>1,94,61,78</b>	<b>53,68,31</b>	<b>-72.41</b>	<b>2,09,70,36</b>	<b>60,37,09</b>	<b>-71.21</b>	<b>63,98,70</b>	<b>-5.65</b>

## आयोजनेतर व्यय का विवरण

(आंकड़े हजार रुपयों में)

	अक्टूबर-मार्च		विवृत वर्ष की द्वितीय छःमाही से प्रतिशत वृद्धि	वास्तविक व्यय		वास्तविक व्यय 08-09 से वास्तविक व्यय 09-10 से प्रतिशत वृद्धि	बजट अनुमान 2009-2010	बजट अनुमान 09-10 से वास्तविक व्यय 09-10 की प्रतिशत वृद्धि	
	2008-2009	2009-2010		2008-2009	2009-2010				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>उधार और अग्रिम</b>									
6075	विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	27,14,50	24,81,78	-8.57	27,14,50	44,72,51	64.76	1,55,00,00	-71.14
6202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	3,00,00	4,00,00	33.33	4,00,00	4,00,00	0.00	4,00,00	0.00
6217	शहरी विकास के लिए कर्ज	10,00,00	10,92,00	9.20	10,00,00	10,92,00	9.20	10,92,00	0.00
6235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज	0	0	-	0	0	-	1	-100.00
6245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज	0	0	-	0	0	-	2,50,00	-100.00
6401	फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज	3,11	3,93	26.55	3,11	3,93	26.55	2,00,01	-98.03
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	8,68,00,00	29,46,95,33	239.51	11,43,00,00	30,80,29,00	169.49	2,00,00,00	1,440.14
7610	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	7,61	49	-93.44	9,86	56	-94.22	1,88,00	-99.69
7810	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	55,75	1,27,66	128.97	73,49	2,77,57	277.69	13,35	1,979.18
<b>योग-उधार और अग्रिम</b>		<b>9,08,80,97</b>	<b>29,88,01,21</b>	<b>228.78</b>	<b>11,85,00,96</b>	<b>31,42,75,58</b>	<b>165.20</b>	<b>3,76,43,37</b>	<b>734.87</b>
<b>योग</b>		<b>1,29,44,75,07</b>	<b>1,77,09,69,53</b>	<b>36.80</b>	<b>2,32,87,00,32</b>	<b>2,94,27,07,26</b>	<b>26.36</b>	<b>2,74,16,76,78</b>	<b>7.33</b>

आयोजना व्यय का विवरण

(आंकड़े हजार रुपयों में)

	अक्टूबर-मार्च		विगत वर्ष की द्वितीय छःमाही से प्रतिशत वृद्धि	वास्तविक व्यय		वास्तविक व्यय 08-09 से वास्तविक व्यय 09-10 की प्रतिशत वृद्धि	बजट अनुमान 2009-2010	बजट अनुमान 09-10 से वास्तविक व्यय 09-10 की प्रतिशत वृद्धि
	2008-2009	2009-2010		2008-2009	2009-2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>राजस्व व्यय</b>								
2029 भू राजस्व	8,87,02	1,06,18,46	1,097.08	9,80,53	1,07,27,17	994.01	37,64,21	184.97
2039 राज्य उत्पाद शुल्क	-36,04	0	-100.00	0	0	-	0	-
2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0	-28	-	0	-28	-	0	-
2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं	0	1	-	0	1	-	0	-
2052 सचिवालय - सामान्य सेवाएं	24,50,42	9,31,00	-62.00	27,00,42	14,81,00	-45.15	24,26,02	-38.95
2054 खजाना और लेखा प्रशासन	-0	3	-484.82	0	3	-	1,21,00	-99.97
2055 पुलिस	11,82,06	14,86,15	25.72	21,24,09	25,64,39	20.72	22,34,00	14.78
2056 जेल	1,71,72	1,58,88	-7.47	1,74,84	1,73,22	-0.92	3,81,37	-54.57
2059 लोक निर्माण कार्य	-23,61,79	-17,88,11	-24.29	-23,61,79	-25,65,42	8.62	-98,42,74	-73.93
2071 पेंशन तथा सेवा निवृत्ति हितलाभ	0	0	-	0	0	-	0	-
2202 सामान्य शिक्षा	6,78,33,71	10,38,81,94	53.14	10,67,93,89	14,13,79,77	32.38	15,64,53,06	-9.63
2203 तकनीकी शिक्षा	23,06,62	53,56,68	132.23	30,74,59	60,68,21	97.36	76,61,05	-20.79
2204 खेल तथा युवा सेवायें	14,13,82	24,87,41	75.93	23,80,64	31,76,15	33.41	32,68,04	-2.81
2205 कला एवं संस्कृति	15,57,97	13,71,65	-11.95	19,94,36	15,55,67	-21.99	16,00,12	-2.77
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,48,08,78	1,53,31,88	3.53	1,78,39,02	1,98,06,23	11.02	1,98,44,02	-0.19
2211 परिवार कल्याण	88,50,96	1,14,82,58	29.73	1,58,06,86	2,00,04,64	26.55	1,84,06,89	8.68
2215 जल पूर्ति तथा सफाई	89,77,13	1,21,83,87	35.72	1,59,09,59	1,62,14,55	1.91	1,67,55,91	-3.23
2216 आवास	49,61,83	79,15,96	59.53	1,03,06,91	1,12,10,11	8.76	78,80,00	42.26
2217 शहरी विकास	4,44,50,04	3,43,37,63	-22.75	4,96,40,85	4,83,38,54	-2.62	4,51,49,56	7.06
2220 सूचना तथा प्रचार	-2,88,15	5,53,51	-292.08	2,11,99	5,56,81	162.65	3,92,57	41.83
2225 अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,94,74,53	7,48,92,67	51.37	8,80,88,32	10,54,16,80	19.67	10,26,59,99	2.68
2230 श्रम तथा रोजगार	28,41,30	27,89,74	-1.81	34,35,05	33,91,45	-1.26	38,96,19	-12.95
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4,01,62,24	9,53,08,82	137.30	7,02,71,95	13,75,96,14	95.80	16,08,55,06	-14.45
2236 पोषाहार	2,26,46,59	4,21,65,66	86.18	2,82,35,88	5,51,90,13	95.46	8,13,40,22	-32.14
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	20,00	0	-100.00	20,00	0	-100.00	0	-
2401 फसल कृषि कर्म	3,82,41,24	4,20,87,44	10.05	4,67,48,45	5,99,68,69	28.27	8,69,04,04	-30.99
2402 मृदा तथा जल संरक्षण	6,92,50	7,60,96	9.88	8,66,63	12,90,10	48.86	21,80,45	-40.83
2403 पशु पालन	47,07,40	60,57,49	28.68	59,84,07	71,22,08	19.01	85,95,18	-17.13

## आयोजना व्यय का विवरण

( आंकड़े हजार रुपयों में )

	अक्टूबर-मार्च		विगत वर्ष की द्वितीय छःमाही से प्रतिशत वृद्धि	वास्तविक व्यय		वास्तविक व्यय 08-09 से वास्तविक व्यय 09-10 की प्रतिशत वृद्धि	बजट अनुमान 2009-2010	बजट अनुमान 09-10 से वास्तविक व्यय 09-10 की प्रतिशत वृद्धि
	2008-2009	2009-2010		2008-2009	2009-2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2405 मछली उद्योग	5,57,00	11,19,80	101.03	8,27,39	12,62,96	52.64	26,08,30	-51.57
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी	3,00,53,12	2,00,60,84	-33.24	3,66,42,62	2,77,53,44	-24.25	5,01,63,67	-44.67
2408 खाद्य, भंडारण और भांडागार	2,20,96	7,69,78	248.38	2,20,96	7,69,78	248.38	8,53,01	-9.75
2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	-7,11,93	12,36,34	-273.65	29,93,92	20,91,54	-30.14	20,95,28	-0.17
2425 सहकारिता	34,26,54	57,44,92	67.65	34,88,42	57,61,85	65.17	58,25,00	-1.08
2501 ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	3,46,60,20	4,34,27,32	25.29	4,68,09,59	4,85,91,22	3.80	7,37,74,25	-34.13
2505 ग्रामीण रोजगार	2,86,57,18	2,81,64,18	-1.72	5,26,55,48	3,56,69,83	-32.25	5,06,10,41	-29.52
2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	5,95,19,57	6,12,47,08	2.90	8,01,29,81	12,14,09,05	51.51	12,07,97,73	0.50
2700 मुख्य सिंचाई	3,43,88	3,91,69	13.90	6,95,34	7,98,96	14.90	0	-
2701 मध्यम सिंचाई	42,77,94	67,71,06	58.27	90,59,41	1,27,77,37	41.03	0	-
2702 लघु सिंचाई	3,19,08	2,89,52	-9.26	4,52,22	4,01,78	-11.15	4,26,36	-5.76
2705 कमान क्षेत्र विकास	68,38	83,79	22.53	1,19,50	1,63,04	36.43	2,52,64	-35.46
2801 बिजली	-2,21,69,69	1,32,26,27	-159.65	1,18,76,32	1,52,46,17	28.37	1,60,52,01	-5.02
2810 अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत	6,27,50	4,14,25	-33.98	6,27,50	4,14,25	-33.98	0	-
2851 ग्राम तथा लघु उद्योग	50,70,57	56,52,57	11.47	84,14,87	78,58,97	-6.60	81,68,16	-3.78
2852 उद्योग	27,86,61	50,86,63	82.53	52,45,09	69,77,68	33.03	68,51,55	1.84
2853 अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2,79,16	3,78,45	35.56	5,22,61	6,78,98	29.92	7,02,20	-3.30
3053 नागर विमानन	40,35	0	-100.00	50,85	0	-100.00	80,38	-100.00
3054 सड़क तथा सेतु	0	1	-	0	0	-	0	-
3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	32,83,03	38,18,03	16.29	47,55,05	42,39,71	-10.83	56,53,00	-25.00
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	4,37	10,00,00	22,736.10	8,28	10,00,00	11,977.29	5,00,00	100.00
3452 पर्यटन	10,33,90	9,48,54	-8.25	19,43,61	13,98,21	-28.06	14,00,00	-0.12
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	72,07	14,80,84	1,954.70	7,80,92	19,91,50	155.02	20,51,38	-2.91
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	14,35	0	-100.00	14,35	0	-100.00	33,00	-100.00
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	6,98,59	1,40,50,73	1,911.29	2,25,97,36	3,49,52,57	54.67	5,67,52,00	-38.41
<b>योग-राजस्व व्यय</b>	<b>46,90,84,77</b>	<b>68,57,34,87</b>	<b>46.18</b>	<b>76,21,58,61</b>	<b>98,28,75,21</b>	<b>28.95</b>	<b>1,12,85,76,54</b>	<b>-12.91</b>
<b>पूंजीगत व्यय</b>								
4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0	17,93	-	0	17,93	-	20,00	-10.33
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	80,60,81	80,83,98	0.28	1,01,17,92	98,84,63	-2.30	94,64,00	4.44
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2,08,81,91	2,15,08,98	3.00	2,46,53,76	2,30,12,19	-6.65	1,66,31,84	38.36
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	58,07,71	64,99,63	11.91	67,83,44	78,35,65	15.51	52,74,42	48.55

## आयोजना व्यय का विवरण

( आंकड़े हजार रुपयों में )

	अक्टूबर-मार्च		विगत वर्ष की द्वितीय छःमाही से प्रतिशत वृद्धि	वास्तविक व्यय		वास्तविक व्यय 08-09 से वास्तविक व्यय 09-10 की प्रतिशत वृद्धि	बजट अनुमान 2009-2010	बजट अनुमान 09-10 से वास्तविक व्यय 09-10 की प्रतिशत वृद्धि
	2008-2009	2009-2010		2008-2009	2009-2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	9,52	0	-100.00	9,52	0	-100.00	25,00	-100.00
4215 जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,10,17,28	3,01,24,54	-2.87	5,60,62,07	4,64,72,60	-17.10	5,52,02,10	-15.81
4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय	6,71,85	25,21,46	275.29	30,17,48	28,11,04	-6.84	34,17,00	-17.73
4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	34,36,40	46,51,62	35.36	52,06,08	68,74,25	32.04	59,57,82	15.38
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2,42,60,52	2,48,51,64	2.43	2,75,92,66	2,58,47,51	-6.32	2,82,43,28	-8.48
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	28,38,54	43,55,44	53.43	53,37,34	44,76,97	-16.11	5,18,40	763.61
4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,64,12	2,07,67	-21.36	6,15,70	2,07,67	-66.26	2,07,68	-0.00
4402 मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	0	0	-	0	0	-	0	-
4403 पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	85,90	42,79	-50.18	85,90	42,79	-50.18	45,00	-4.89
4405 मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय	33,76	19,16	-43.22	33,76	19,97	-40.82	20,05	-0.36
4406 वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	22,06,21	19,42,73	-11.94	24,51,00	21,31,57	-13.03	21,78,84	-2.16
4408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	70,76	0	-100.00	70,76	0	-100.00	0	-
4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	15,00	1,50,98	906.53	9,95,28	1,50,98	-84.83	3,19,01	-52.67
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	2,24,75,01	3,38,09,52	50.43	4,60,80,77	4,33,36,34	-5.95	5,85,99,00	-26.04
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	10,79,91,40	8,04,25,03	-25.52	15,12,67,25	13,76,99,18	-8.96	15,90,13,68	-13.40
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	93,74,00	1,75,34,54	87.05	1,45,44,89	2,23,97,69	53.99	3,09,59,92	-27.65
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,80,19,62	3,17,90,25	13.45	4,59,75,17	5,20,51,56	13.21	4,95,35,82	5.07
4705 कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	9,05,52	11,04,53	21.97	11,46,65	13,73,48	19.78	17,48,76	-21.45
4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6,21,57	3,07,63	-50.50	12,64,94	6,89,70	-45.47	8,00,00	-13.78
4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4,81,91,58	19,01,17,11	294.50	7,47,01,03	20,94,75,44	180.41	4,30,48,44	386.60
4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3,70,58	8,19,26	121.07	8,53,45	16,70,53	95.73	16,85,17	-0.86
4853 अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4,75	4,75	0.11	4,76	4,87	2.35	1,06,00	-95.40
4875 अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1,40,00	1,00,00	-28.57	1,40,00	1,00,00	-28.57	2,00,07	-50.01
4885 उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	5,00,00	5,00,00	0.00	5,00,00	5,00,00	0.00	5,00,00	0.00
5053 नगर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	9,92,14	4,29,07	-56.75	11,63,77	5,32,27	-54.26	7,19,62	-26.03
5054 सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	7,25,74,13	10,93,66,73	50.69	16,37,37,10	19,55,94,34	19.45	19,32,50,00	1.21
5425 अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	3,00,00	7,00,00	133.33	8,00,00	8,50,00	6.25	8,50,00	0.00
5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	46,57,23	51,42,72	10.42	51,32,23	55,59,38	8.32	43,76,00	27.04
5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0	37,18	-	0	37,18	-	0	-
<b>योग-पूंजीगत व्यय</b>	<b>39,67,77,91</b>	<b>57,71,66,99</b>	<b>45.46</b>	<b>65,03,44,68</b>	<b>80,16,57,82</b>	<b>23.26</b>	<b>67,29,16,92</b>	<b>19.13</b>

उधार और अग्रिम

## आयोजना व्यय का विवरण

(आंकड़े हजार रुपयों में)

	अक्टूबर-मार्च		विगत वर्ष की द्वितीय छःमाही से प्रतिशत वृद्धि	वास्तविक व्यय		वास्तविक व्यय 08-09 से वास्तविक व्यय 09-10 की प्रतिशत वृद्धि	बजट अनुमान 2009-2010	बजट अनुमान 09-10 से वास्तविक व्यय 09-10 की प्रतिशत वृद्धि
	2008-2009	2009-2010		2008-2009	2009-2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6215 जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज	22,41,95	19,96,44	-10.95	51,06,79	19,96,44	-60.90	26,57,00	-24.86
6216 आवास के लिए कर्ज	0	0	-	0	0	-	0	-
6217 शहरी विकास के लिए कर्ज	1,56,38,16	98,38,00	-37.08	1,69,32,16	1,66,59,60	-1.60	3,49,36,88	-52.31
6403 पशु पालन के लिए कर्ज	0	0	-	0	0	-	0	-
6405 मछली पालन के लिये कर्ज	2,34	1,10	-52.99	3,29	1,10	-66.56	1,60	-31.25
6425 सहकारिता के लिए कर्ज	6,00,00	6,61,67	10.27	6,00,00	6,95,00	15.83	6,95,00	0.00
6705 कमान क्षेत्र विकास के लिए कर्ज	0	0	-	0	0	-	3,84,98	-100.00
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	1,32,26,66	2,66,86,82	101.76	4,31,91,94	4,93,38,06	14.22	6,23,33,33	-20.84
6851 ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज	0	0	-	0	0	-	1	-100.00
7075 अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज	18,84,00	0	-100.00	18,84,00	0	-100.00	3,00,00	-100.00
<b>योग-उधार और अग्रिम</b>	<b>3,35,93,11</b>	<b>3,91,84,04</b>	<b>16.64</b>	<b>6,77,18,18</b>	<b>6,86,90,20</b>	<b>1.43</b>	<b>10,13,08,80</b>	<b>-32.19</b>
<b>योग</b>	<b>89,94,55,791</b>	<b>30,20,85,91</b>	<b>44.761</b>	<b>48,02,21,47</b>	<b>1,85,32,23,24</b>	<b>25.19</b>	<b>1,90,28,02,26</b>	<b>-2.60</b>